

# गुरु – सतिगुरु

## भाग – १

“गुरु शब्द गी धातु से बना है – जिसका अर्थ है निगल जाना और समझाना। जो अज्ञानता को खा जाता है तथा शिष्य को तत्त्व ज्ञान देता है , वही गुरु है ।

इसलिए अज्ञानता या भ्रम के अंधकार को दूर करने वाली शरखसीयत या अनुभवी ज्ञान को ही गुरु कहा जाता है ।

अज्ञानता दो प्रकार की होती है –

1. सांसारिक अज्ञानता : – बीमारी, अनपढ़ता तथा अनुभवहीनता के कारण मनुष्य के दिमाग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता। इस अज्ञानता के कारण मनुष्य संसार के हर क्षेत्र में दुरवी होता है ।
2. आध्यात्मिक अज्ञानता : – सांसरिक, धार्मिक तथा आत्मिक मंडल के विषय में दृढ़ किए हुए, सुने – सुनाए, नाममात्र, अपूर्ण, गलत रव्याल, जानकारी या धारणाओं को ही आध्यात्मिक अज्ञानता या अंधकार कहा गया है।

आजकल स्कूल व कालेज में साधारण तथा वैज्ञानिक विद्या बहुत उन्नति कर चुकी है तथा कर रही है। इस मायिकी विद्या ने हमें बहुत से शारीरिक तथा मानसिक सुख प्रदान किये हैं, परन्तु विज्ञान के अद्भूत चमत्कारों से हमारा मन इतना चुंधिया गया है कि हम अपने केन्द्र ‘आत्मा’ को पूर्णतया भूल गए हैं। जिस कारण हमारा जीवन ‘आत्म – हीन’, रुखा – सुखा तथा स्वार्थी बन गया है। इसके साथ ही साथ हमारा ‘आहम्’ भी फलता जा रहा है तथा हमारे अन्दर

**दैवीय गुणों की अपेक्षा असुरी अवगुण –** काम, कोध, निंदा, नफरत, स्वार्थ, बेर्झमानी, भष्टाचार (corruption), लड़ाईयां, झगड़े प्रवेश कर गए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में प्रधान हैं। दुनिया में हर ओर लूट – रखसूट, धक्के शाही, जुल्म, अत्याचार व लड़ाई – झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जिस कारण चारों ओर अशांति बढ़ रही है और सारा संसार ही ‘मायिकी अग्नि कण्ड’ बन गया है।

गुरु नानक साहिब ने संसार की इस दशा को देरव कर अथवा महसूस करके युं उपदेश दिये हैं—

एहु जगु जलता देरिवि कै भजि पए हरि सरणाई राम ॥ (पृ. ५७१)

आतस दुनीआ खुनक नाम खुदाइआ ॥ (पृ. १२९१)

मायिकी विद्या और विज्ञान का इतना विकास होने के बावजूद भी दुनिया जल-बल-सड़ रही है और अत्यन्त दुरवी हो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि सारी मायिकी विद्या, दुनिया की 'गुप्त सुलगती आग' को बुझाने और संसार में सच्ची, अटल, सुख-शान्ति लाने में असमर्थ रही है।

दूसरे शब्दों में इस सांसारिक 'अग्नि को बुझाने' मन का अन्धकार दूर करने तथा सुख-शान्ति लाने के लिए, किसी अन्य उत्तम-श्रेष्ठ 'आत्मिक-विद्या' अथवा अनुभवी ज्ञान की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट होता है कि आज सांसारिक विद्या की अपेक्षा आत्मिक विद्या की ओर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है।

पड़िआ मरख आरवीऐ जिस लबु लोभु अहंकारा ॥

नाउ पड़ीऐ नाउ बुझीऐ गुरमती वीचारा। (पृ० १४०)

**मन समझावन कारने कछुअक पडीऐ गिआन॥**

ਹਰਿ ਪਦੁ ਹਰਿ ਲਿਖੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਗਾਤ।  
ਹਰਿ ਭਉਜਲ ਪਾਰਿ ਤਾਰੀ॥ (ਪੰ ੬੬੯)

ਹਰਿ ਪਡੀਏ ਹਰਿ ਬਝੀਏ ਗਰਮਤੀ ਨਾਮਿ ਉਧਾਰਾ॥

गरि परै पुरी मति है परै सबदि बीचारा ॥ (प० १००९)

बाहरी मायिकी विद्या जहां हमें बाहरी सुख प्रदान करती है, वहां साथ ही साथ हमारे मन को मैला करके, हमें रसातल की ओर ले जा रही है और हम

‘आत्मिक विद्या’ से कोरे या वांचित होते जा रहे हैं। आत्मिक मार्ग में भी किसी सीमा तक यह सांसारिक शिक्षा या दिमागी ज्ञान सहायक हो सकता है। इससे आगे इसकी पहुंच नहीं क्योंकि यह माया के त्रिगुणी दायरे तक ही सीमित है। इससे ऊपर ‘चौथे – पद’ का ज्ञान केवल ‘अनुभव’ का विषय है जो पूर्णतः आत्मिक खेल है तथा बुद्धि की पकड़ से बाहर है।

आत्मिक शिक्षा के लिए आत्मिक अध्यापक (Spiritual Master) या ‘गुरु’ की आवश्यकता होती है, जो हमारी चेतनता (Consciousness) का विकास करके हमें ‘आत्मिक ज्ञान’ दे सके। आजकल सांसारिक शिक्षा प्रदान करने वाली युनिवर्सिटी (universities) केवल दिमाग का विकास ही करती है, जो आत्मिक भावनाओं या अति सूक्ष्म इलाही ‘भावना’ के अभाव के कारण, मनुष्य को भावना – हीन, रुखा – सूखा मशीनी बुद्धि (mechanical robot) ही बना देती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सांसारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं, अपितु हमें ऐसी सम्पूर्ण – शिक्षा की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन के शारीरिक, दिमागी, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आत्मिक पक्ष का सम्पूर्ण विकास कर सके। हमारे शिक्षकों तथा प्रबंधकों को इस ‘पहल’ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पुराने समय में प्राकृतिक वातावरण में स्थित विद्यक और आत्मिक ‘गुरु – कुल’ बड़े कामयाब थे। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय। आजकल भी बंगाल में इस प्रकार का एक विश्वविद्यालय ‘शांति – निकेतन’ बहुत सफलता से चल रहा है।

जब से संसार की रचना हुई है, तब से ही आत्मिक – विद्या प्रज्वलित करने के लिए आवश्यकतानुसार गुरु, पीर – पैगम्बर, साधु, संत, भक्त, गुरमुख जन प्रकट होते रहे हैं। वह दुनियां को उचित आत्मिक जीवन – सीध देते रहे और अपनी – अपनी शिक्षा तथा बाणी हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए छोड़ गए।

कुछ समय से ‘गुरु’ सतिगुरु के शब्द तथा इसके भावार्थ के विषय में बहुत सी शंकाएं तथा भ्रम – भ्रातियां पड़ी हुई हैं तथा वाद – विवाद चल रहे हैं, जिनका निर्णय करना जरूरी है।

प्रारम्भ में बताया गया था कि अज्ञानतारूपी अन्धकार को दूर करने वाले प्रकाश को ‘गुरु’ कहते हैं। पुरातन समय में हर प्रकार की शिक्षा देने वाले

अध्यापक को भी 'गुरु' कहते थे क्योंकि वह अपने शिष्यों के अनपढ़ता के अन्धकार को दूर करते थे। यह रीति अभी भी कई स्थानों पर प्रचलित है। संगीत विद्या, शस्त्र विद्या तथा अन्य कई प्रकार की शिक्षा देने वालों को आज भी 'गुरु' कह कर ही सम्बोधित किया जाता है। यह 'गुरु' शब्द अन्य मतों में भी आम प्रचलित है, तथा हमें इस शब्द के विषय में शंका, भ्रम या वाद - विवाद नहीं करना चाहिए तथा न ही 'गुरु' शब्द से घृणा (allergy) करनी चाहिए। हमें अन्य मतों या धारणाओं के सम्बंध में बहुत विशाल हृदय से सहनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए। गुरबाणी ने भी बहुत उदार चित्त होकर प्रत्येक मत की धारणाओं का आदर तथा सत्कार किया है। यदि हम ऐसे विशाल तथा उदार दृष्टिकोण से अन्य मतों की धारणाओं पर विचार करें, तो हमारा किसी से कोई वाद - विवाद, वैर - विरोध, लड़ाई - झगड़ा न हो तथा -

ना को ढैरी नहीं बिगाना सगल सौंगि हम कउ बनि आई॥ (पृ १२९९)

वाला हमार जीवन हो।

'गुरु' पद का विषय अति सूक्ष्म व दीर्घ होने के कारण ज्ञानियों, विद्वानों, गुरमुरवों तथा महापुरुषों के विचार का विषय रहा है और है भी। पहले भी इस विषय पर कई बार विचार - विमर्श, लेख तथा पुस्तकें छप चुकी हैं। गुरबाणी के प्रकाश में इस विषय पर इस लेख द्वारा कुछ विचार संगत के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

'गुरु' शब्द पर विचार करने से पहले आत्मा, परमात्मा, संसार तथा माया के विषय में सम्पूर्ण सामान्य ज्ञान (overall knowledge) पर प्रकाश डालना लाभदायक होगा।

माना गया है कि परमात्मा ने अपनी मौज में इस संसार की रचना की तथा इसमें चौरासी लाख योनियां उत्पन्न करके, इस विशाल सृष्टि को चलाने के लिए 'हुकुम' रूपी प्रबन्ध चलाया, जो सदा इकसार, सहज, पूर्ण नियम - बद्ध, समय की पाबंदी में चल रहा है। परमात्मा '१' एक है तथा जब संसार की रचना की गई तो एक से अनेक रूप हो गए। इस अनेकता को बाणी में 'संसार', 'माया', 'कुदरत' 'त्रि - गुण' आदि नामों से पुकारा गया। जिस प्रकार सूर्य तथा उसकी किरणें, प्रत्येक वस्तु में अपनी जीवन - रौप्रवृष्ट करती है, उसी प्रकार सारी रचना में ईश्वर की 'शक्ति', 'जीवन - रौ' (Life & current) गुप्त रूप में काम कर रही है।

वैज्ञानिकों ने पदार्थ को महीन से महीन तोड़ कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह निर्जीव पदार्थ (Dead matter) अदृष्य तथा सूक्ष्म

प्रोटोन्स (Protons)

न्यूट्रोन्स (Neutrons)

इलैक्ट्रोन्स (Electrons)

आदि महीन अणुओं (minute nuclear particles) का बना हुआ है। इलैक्ट्रोन्स की हरकत द्वारा ही दुनिया के समस्त पदार्थ एवं विद्युत (electric current) अस्तित्व में आते हैं। ठीक इसी प्रकार धरती की प्रत्येक वस्तु 'अदृष्य आकर्षण' या 'गुरुत्व - आकर्षण' (gravity) के अधीन है। प्रत्येक वस्तु के परमाणु (Atoms) इस 'आकर्षण' के नियम का पालन करते हैं।

'पदार्थिक - आकर्षण' भी 'चुम्बकीय - आकर्षण' की भाँति 'अचेतन - नियम' अनुसार काम करता है। इस प्रकार के प्राकृतिक नियम अचेत होने के कारण, इलाही नियमों से पृथक किये जा सकते हैं। उपरोक्त दोनों उदाहरणों से सिद्ध होता है कि ठोस निर्जीव - पदार्थ (dead matter) में भी 'शक्ति' काम करती है। परन्तु यह 'शक्ति' और इसके नियम 'चेतन' नहीं होते क्योंकि यह बुद्धि (intelligence) तथा भावनाओं (emotions) से वंचित होते हैं। इन दृष्ट्यमान्, सांसारिक तत्वों (elements) तथा इनके अचेत नियमों का चालक (controller or driver), एक अन्य 'सत् - चित् आनन्द' स्वरूप 'परम - तत्व' (primal element) है। यह जीवन 'आत्मिक - रौ' (Divine Life current) 'अनहद - धुनि' के रूप में समस्त सृष्टि में व्याप्त है। इस आत्मिक - जीवन - रौ में ही इलाही निर्मल ज्ञान, शक्ति, प्रकाश तथा अन्य अनेक आत्मिक गुण परिपूर्ण हैं, जिन्हें बाणी में -

नाम

शब्द

हुक्म

प्रिम रस

अनहद इंकार

अनहद धुनि  
ब्रह्म ज्ञान

शब्दों द्वारा दर्शाया गया है।

यह संसार उस गुप्त ‘परम – तत्त्व’, जीवन – रौं’, ‘नाम’, ‘शब्द’, ‘हुकुम’ की शक्ति तथा प्रकाश के सहारे चल रहा है परन्तु जीव अपने इस ‘परम – तत्त्व’ के अस्तित्व तथा विरासत से अनभिज्ञ है।

संसार में लोग दो प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं –

**प्रथम – अज्ञानता वाला तथा**

**द्वितीय – अनुभवी प्रकाश वाला ।**

अज्ञानता या भ्रम वाले जीवन में, सारा संसार अपने केंद्र ‘जीवन – रौं’ तथा ‘नाम’ से अनभिज्ञ होने के कारण, अहम् के सहारे त्रिगुणी माया में विचरण करता है। इसका चित्र गुरबाणी में यूँ रखीचा गया है –

भरमे आवै भरमे जाइ॥

इहु जगु जनमिआ दूजै भाइ ॥ (पृ. १६१)

इहु जगु भरमि भुलाइआ मोह ठगउली पाइ॥ (पृ. २३३)

भरमे भूला फिरै संसारु ॥

मरि जनमै जमु करे खुआरु ॥ (पृ. ५६०)

त्रै गुण माइआ भरमि भुलाइआ हउमै बंधन कमाए ॥ (पृ. ६०४)

साथो इहु जगु भरम भुलाना ॥

राम नाम का सिमरनु छोडिआ माइआ हाथि बिकाना ॥ (पृ. ६८५)

बिनु सबदै सभु अंध अंधेरा गुरमुखि किसहि बुझाइदा ॥ (पृ. १०६५)

यह भ्रम – अंधेरा अथवा अज्ञानता हमारे मन की सूक्ष्म अवस्था है, जो सांसारिक विद्या द्वारा परिवर्तित नहीं हो सकती क्योंकि गुरबाणी अनुसार इसे केवल ‘गुरु’ ही दूर कर सकता है।

कहु नानक गुरि खोले कपाट ॥

मुकतु भए बिनसे भ्रम थाट ॥ (पृ. १८८)

डीगन डोला तऊ लउ जउ मन के भरमा ॥

भ्रम काटे गुरि आपणै पाए बिसरामा ॥

(पृ ४००)

जे सउ चंदा उगवहि सूरज चड़हि हजार ॥

एते चानण होदिआं गुर बिनु घोर अंधार ॥

(पृ ४६३)

गुर गिआन अंजनु सतिगुरु पाइआ अगिआन अंधेर बिनासे ॥ (पृ ५७३)

जब हम ‘गुरु’ या ‘सतिगुरु’ का वर्णन करते हैं या सुनते हैं, तो तत्काल हमारा ध्यान ‘देह’ स्वरूप गुरुओं की ओर सहज ही चला जाता है, जो तस्वीरों या कलैन्डरों पर छपे होते हैं। परन्तु हमारी यह ‘देह स्वरूप’ कल्पना या धारणा, गुरबाणी के आशय के अनुकूल नहीं है।

गुरबाणी में ‘गुरु’ पद के आगे या पीछे अनेक विशेषण लगाए गए हैं, जैसे -

एक-गुरु

पुरा-गुरु

सति-गुरु

सच्चा-गुरु

गुरु-बोहिथ

गुरु-रक्वट

गुरु-तीर्थ

गुरु-दरियाओ

गुरु-पीर

गुरु-पारस

गुरु-दीपक

गुरु-पिता

गुरु-माता

गुरु-दाता

गुरु-हिवैघर

गुरु-शीतल

गुरु-सिव

## गुरु - बाल - सरवाई

## गुरु - परमेश्वर

## गुरु - पारब्रह्म

## गुरु - गोविद

## गुरु - सिर्व

## गुरु - साधु

गुरु - संत

## गुरु - बह्मजानी

गुरु - देव

गुरु. — शब्द, आदि।

‘गुरु परमेश्वर’ पद पर विचार करने की आवश्यकता है। जब लोहा आग में गरम करने से लाल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि लोहा आग की भाँति लाल होकर ‘अग्निस्वरूप’ हो गया है। इसी प्रकार शब्द – रूप ‘गुरु’ अकालपुरुष की ‘समीपता’ में ‘अकाल रूप’ ही हो जाता है तथा उस अवस्था के लिए ‘गुरु परमेश्वर’ पद का प्रयोग किया गया है। उदाहरणस्वरूप सूर्य की किरणें सूर्य के समीप ‘सूर्य रूप’ होती हैं, परन्तु सूर्य से दूर होने पर मात्र किरणें ही रह जाती हैं। उपरोक्त दृष्टि टकोण के द्वारा अन्य सभी विशेषण भी सहज ही समझ आ सकते हैं।

इन सभी विशेषणों से ज्ञात होता है कि गुरमति अनुसार 'गुरु' शब्द का संकेत किसी सूक्ष्म 'परम-तत्त्व' की ओर है, न कि 'देह स्वरूप' की ओर। वाणी में स्पष्ट रूप से लिखा है-

हिरदै चरण सबुदु सतिगुरु को नानक बांधिओ पाल॥

(पृ ६८०)

सबद गरु सरति धनि चेला।

(प. १४३)

गरमरति गर सबदु है साध संगति विचि परगटी आइआ।

(वा.भाग् २४/२५)

इसलिए गुरमति अनुसार ‘गुरु’-‘शब्द’ रूप है तथा यह ‘शब्द’, सूक्ष्म ‘परम - तत्त्व’, ‘नाम’, ‘जीवन - रौ’ (Spiritual Essence, Divine Life Current) ‘ज्योति’ है, जो सर्वत्र ओत - प्रोत परिपूर्ण है। उपरोक्त सभी विशेषण इसी गुरु शब्द को शोभा देते हैं तथा इसी के लिए ही प्रयोग किये गए हैं।

जिस प्रकार सभी गुरु साहिब ‘ज्योति स्वरूप’ या ‘शब्द स्वरूप’ होते हुए भी, उन्होंने हमें साक्षात् होकर और हमारी ‘अल्प बुद्धि’ को समझाने व विश्वास दिलाने के लिए शरीर धारण किया और हमारा मार्ग प्रशस्त किया। दसवें पातशाह ने हम पर अत्यन्त कृपा करके, ‘शब्द स्वरूप’ गुरु-बाणी के सम्पूर्ण स्वरूप ‘गुरु-ग्रंथ साहिब’ से हमारा नाता जोड़ा। इस प्रकार सदा के लिए हमें देह-धारी गुरु के भ्रम से बचा लिया।

आपे सतिगुरु आपि सबदु जीउ जुगु जुगु भगत पिआरे॥ (पृ २४६)

सबदु गुर पीरा गहिर गंभीरा बिनु सबदे जगु बउरानं॥ (पृ ६३५)

सतिगुरु पुरखु दाता वड दाणा॥

जिसु अंतरि साचु सु सबादि समाणा॥ (पृ १०३०)

सचा सतिगुरु सबदु अपारा॥

तिस दै सबादि निसतरै संसारा॥ (पृ १०५५)

गुर महि आपु समोइ सबदु वरताइआ॥

(पृ १२७९)

आनद मूलु रामु सभु देरिवआ गुर सबदी गोविदु गजिआ॥ (पृ १३१५)

जह कह तह भरपूरु सबदु दीपकि दीपायउ॥

(पृ १३९५)

निरगुण सरगुण सतिगुरु विरला को गुर सबद समासी। (वा.भा.गु ४०/२१)

अभी तक ‘शब्द गुरु’ का ज्ञान या सिद्धांत, हमारी दिमागी समझ तक ही सीमित है, इसलिए संगत में कई बार बहुत तत्त्व वाद – विवाद तथा झगड़े होते रहते हैं। वास्तव में शब्द ‘गुरु’ का विषय, त्रि-गुणी सीमा से बाहर, चौथे पद का अनुभवी खेल है।

“शब्द” के दो स्वरूप हैं –

एक ‘शालिक स्वरूप’ है, जो गुरबाणी के रूप में हमारे समक्ष है।

तथा

दूसरा स्वरूप ‘परम-तत्त्व’, ‘आत्म-रौ, ‘नाम’, ज्योति’ है, जो केवल गुरु-प्रसाद द्वारा ही ‘अनुभव’ हो सकता है।

जिउ सूरजु किरणि रविआ सरब ठाई सभ घटि घटि रामु रवीजौ॥ (पृ १३२६)

इस प्रकार जब तक हमारी अन्तर - आत्मा में 'गुरु - शब्द' का प्रकाश नहीं होता तथा 'गुरु शब्द' द्वारा गोदिं नहीं 'गर्जता', तब तक हम अज्ञानता के अंधकार में ही रहेंगे तथा भावितियां बनी रहेंगी - चाहे हम ज्ञारीरिक रूप में गुरु गंथ साहिब को शीश निवाते रहें तथा दिमागी रूप में उन्हें 'गुरु' मानते रहे।

उदाहरणस्वरूप सूर्य की किरण प्रकट होने से पहले अंधकार में हम सूर्य के ‘प्रकाश’ के विषय में चाहे जितना भी ज्ञान घोटते रहें या बहस करते रहें, वह सब फोकट ही है। इसी प्रकार ‘गुरु’ के विषय में हमारा ज्ञान तथा श्रद्धा, हमारी मनोकल्पना तक ही सीमित है। हमारी मानसिक ‘भावना’ अनुसार ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा।

ਜੇਹਾ ਸਤਗੁਰੂ ਕਰਿ ਜਾਣਿਆ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ॥ (ਪ੃. 30)

सतिगुर नो जेहा को इछदा तेहा फलू पाए कोइ॥ (प ३०२)

सतिगृह पररव अगंम है निरवैरु निराला।.....

जेहा महु करि भालीए तेहो वेरवाला। (वा. भा. गु. ३४ /१)

सतिगुर की कृपा के फलस्वरूप साध – संगत में विचरण करते हुए ‘गुरु शब्द’ अथवा ‘गुरु मंत्र’ के अभ्यास द्वारा ही हमारे अन्दर गोबिंद गर्जता है तथा प्रकट होता है।

किरपा करे जिस पारब्रह्म होवै साधु संग॥

जिउ जिउ ओहु वधाईए तिउ तिउ हरि सिउ रंगु॥ (पृ. ७१)

साहिबु मेरा सदा है दिसै सबदु कमाइ॥ (पृ. ५०९)

वड भागि पाइआ गुरि मिलाइआ साध कै सत्संगीआ॥ (पृ ७०४)

मनि तनि प्रभु आराधीऐ मिलि साध समागै॥ (पृ. ८१७)

साध संगति गुर सबदु कमाई। (वा.भा.ग. १६ /१)

जिस प्रकार अभी तो, 'गुरु' शब्द कहते या सुनते ही हमारा ध्यान तत्काल गुरुओं के 'देह-स्वरूप' की ओर जाता है, उसी प्रकार जब 'गुरु - मंत्र' का अभ्यास करते - करते हमारी अन्तर - आत्मा में अनुभव खुल जाए, तो 'गुरु' शब्द सुनते या कहते ही, हमारे हृदय में अपने सतिगुरु का सही 'शब्द - स्वरूप' जाहिरा - ज़ाहूर (प्रत्यक्ष प्रकट) ओत - प्रोत प्रतीत होगा। इस शब्द - गुरु की

मधूर और ममतामयी अनुभवी ‘गोद’ में इलाही ‘प्रिम – रसपान’ करते हुए, हमारे हृदय में से स्वतः ही निकलेगा –

तुमरे गुण किआ कहा मेरे सतिगुरा

जब गुरु बोलह तब बिसमु होइ जाइ॥

(पृ १६७)

माई री पेरिव रही बिसमाद।

अनहद धुनी मेरा मनु मोहिओ अचरज ता के स्वाद॥

(पृ १२२६)

इसी अनूठे इलाही ‘प्रेम – रस’ में लीन होकर ही पुकारा जाएगा –

सुनहु लोका मै प्रेम रसु पाइआ॥

(पृ ३७०)

नानक का पातिसाहु दिसै जाहरा॥

(पृ ३९७)

माई मै धनु पाइओ हरि नामु॥

मनु मेरो धावन ते छूटिओ करि बैठो बिसरामु॥

(पृ ११८६)

इस अलौकिक उत्तम – श्रेष्ठ आत्मिक अवस्था पर पहुंच कर, फिर देह धारी गुरु की करत्तई आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए जिज्ञासु को अपने से ऊँची अवस्था वाले गुरमुखजनों, साधु, संत, हरिजन, महापुरुषों की संगत तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। परन्तु उन्हें ‘गुरु’ मान लेना या कहना गुरमति के अनुकूल नहीं है। यह गुरमुख जन, जिज्ञासु को इलाही मार्ग पर चलने में प्रेरक और सहायक होते हैं।

सई ‘पिआरे’ मेरीं जिना मिलिआं तेरा नाम चित आवे॥

(अरदास)

साधसंगि बसतु अगोचर लहै॥

(पृ २७१)

जिसु वरवर कउ लैनि तू आइआ॥

राम नामु संतन घरि पाइआ॥

(पृ २८३)

सुभर भरे प्रेम रस रंगि॥

उपजै चाउ साध कै संगि॥

(पृ २८९)

सो साजनु सो सखा मीतू जो हरि की मति देझ॥

(पृ २९८)

साधु संगि सिरवाइओ नामु॥

सरब मनोरथ पूरन काम॥

(पृ ३९३)

ओइ साजन ओइ मीत पिआरे॥  
 जो हम कउ हरि नामु चितारे॥ (पृ. ७३९)

संता संगति भिलि रहै ता सधि लगै पिंआह॥ (पृ. ७५६)

होहु क्रिपाल सुआमी मेरे संतां संगि विहावे॥ (पृ. ९६१)

कोई आवै संतो हरि का जनु संतो मेरा प्रीतम जनु संतो॥

मोहि मारगु दिखलावै॥ (पृ. १२०१)

गुरु की ऐसी सर्वाच्च, पवित्र – पावन हस्ती को सम्मुख रख कर गुरबाणी में  
 लिखा है –

इका बाणी इकु गुरु इको सबदु चीचारि॥ (पृ. ६४६)

आदि आंति एके अवतारा॥

सोई गुरु समझियहु हमारा॥ (चो. पा. १०)

इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि ‘गुरु’ वही है, जिसका आदि और अंत में  
 केवल एक ही स्वरूप हो, वह केवल सूक्ष्म ‘परम – तत्त्व’, ‘ज्योति’ या  
 ‘शब्द’ ही हो सकता है, न कि कोई शारीरिक या मनोकल्पित हस्ती, जो  
 परिवर्तनशील है और अन्त तक कायम नहीं रह सकती। दूसरी बात ‘एक’ की  
 है। ‘ज्योति’, ‘शब्द’ या ‘परम – तत्त्व’ के अतिरिक्त अन्य कोई हस्ती समय  
 अनुसार दो – तीन और अनेक हो सकती हैं, परन्तु ‘शब्द’ सदा ही ‘एक’ है, सदा  
 एक – सार ‘प्रकाशमय’ है और रहेगा। सूर्य तो नाशवान है और उसी के साथ  
 धूप भी समाप्त हो जाएगी, परन्तु परमेश्वर ‘अकाल’ है तथा इसीलिए अकाल – पुरुष  
 का का प्रकाश – रूप, ‘शब्द’, ‘नाम’, ‘ज्योति’, ‘परम – तत्पव’ का अवतार भी  
 सदा अटल है।

अंधकार किसी प्रकार भी, स्वयं प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार मन  
 के भ्रम – भुलाव का अंधकार भी अपने आप किसी कर्म – कांड, पाठ पूजा,  
 ज्ञान – ध्यान, जप – तप, संयम द्वारा दूर नहीं हो सकता।

गुरु ‘प्रकाश रूप’ है, सतिगुरु के अनुभवी ‘तत्त्व – ज्ञान’ के द्वारा ही हमें  
 यह ‘आत्मिक प्रकाश’ प्राप्त हो सकता है। इसी कारण गुरबाणी को जग – धानण  
 (प्रकाश स्तम्भ) कहा गया है।

गुरबाणी इसु जग महि चानणु करमि वसै मनि आए॥ (पृ. ६७)

जे सउ चंदा उगवहि सूरज चढ़हि हजार॥  
एते चानण होदिआं गुर बिनु घोर अंधार॥ (पृ. ४६३)

सतिगुर बाझु न बेली कोई॥  
ऐथै ओथै रारवा प्रभु सोई॥ (पृ. १०३१)

गुर बिनु घोर अंधारु गुरु बिनु समझ न आवै॥  
गुर बिनु सुरति न सिधि गुरु बिनु मुकति न पावै॥ (पृ. १३९९)

बाहरमुरवी “अंधकार” कई प्रकार के हैं-

1. प्रकाश का अभाव,
2. दृष्टि हीनता का अंधकार,
3. विद्या - हीन अवस्था का दिमागी अंधकार।

उपरोक्त वर्णित ‘अंधकार’ तो हमारे शरीर एवं बुद्धि तक ही सीमित हैं तथा अपने प्रयास द्वारा किसी सीमा तक दूर किये जा सकते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त, एक अन्य मायिकी ‘भ्रम - भुलाव’ का ‘अंधकार’ भी है। जिसके विषय में गुरबाणी यूं बयान करती है।

बजर कपाट काइआ गढ़ भीतरि कूड़ु कुसतु अभिमानी॥  
भरमि भूले नदरि न आवनी मनमुख अंध अगिआनी॥ (पृ. ५१४)

भरमु कोटु माइआ खवाई कहु कितु बिधि तोड़ीऐ॥  
गुरु पूरा आराधि बिरवम दलु फोड़ीऐ॥ (पृ. ५२२)

भरम लोभ मोह माइआ विकार॥  
भ्रम छूटे ते एकंकार॥ (पृ. ७३६)

अंतरि सबदु मिटिआ अगिआनु अंधेरा॥ (पृ. ७९८)

भ्रम भै बिनसि गए खिन भीतरि अंधकार प्रगटे चानाणु॥ (पृ. ८२५)

अंधे एहि न आरवीअनि जिन मुरिव लोइण नाहिः॥  
अंधे सेई नानका खसमहु घुथे जाहि॥ (पृ. ९५४)

हमारी वृत्ति बाहरमुरवी होने के कारण, हम केवल उन वस्तुओं को जानने का प्रयत्न करते हैं, जिन्हें नेत्र देख सकें, शरीर अनुभव कर सके या बुद्धि समझ सके। परन्तु गुरबाणी में स्पष्ट रूप में दर्शाये हुए ‘मायिकी भ्रम-भुलाव’ के ‘अंधकार’ के विषय में हमें –

सूझ ही नहीं  
ज्ञान ही नहीं  
ध्यान ही नहीं  
आवश्यकता ही नहीं  
फुरसत ही नहीं।

इसलिए इस ‘भ्रम’ रूपी अंधकार को दूर करने का हमें रव्याल ही नहीं आता।

आम जनता तो गुरबाणी नहीं पढ़ती तथा उन्हें इस –

मायिकी भ्रम  
‘भ्रम-भुलाव’  
‘भ्रम-कोट’  
‘भ्रम-सुता’  
‘घोर अंधकार’  
‘दुविधा’  
‘द्वैत-भाव’  
‘वज-कपाट’  
‘कूड़ कुसत्त’

का पता ही नहीं, परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि हम नित्य-प्रति गुरबाणी सुनते-पढ़ते, पाठ करते तथा अन्य अनेक कर्म-कांड करते हुए भी, इस मायिकी भ्रम-भुलाव के ‘अंध-कूप’ में ढे-परवाह होकर हम अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ खो रहे हैं। हमारी इस अवस्था को यूं दर्शाया गया है –

पाठु पड़िओ अरु ढेदु बीचारिओ निवलि भुउंगम साथे॥  
पंच जना सिउ संगु न छुटकिओ अधिक अहंबुधि बाथे॥  
पिआरे इन बिधि मिलणु न जाई मै कीए करम अनेका॥

(पृ. ६४१)

पूजा करहि परु बिधि नहीं जाणहि दूजै भाइ मल लाई॥ (पृ. ९१०)

काहं लै पाहन पूज धरयो सिर काहं लै लिंग गरे लटकाइओ॥

काहूं लरिवओ हरि अवाची दिसा महि

काहुं पछाह को सीस् निवाइओ॥

कोऊ बूतान को पूजत है पस् कोऊ मितान को पूजन धाइओ॥

कर क्रिआ ऊरझिआ सभ ही जग

स्त्री भगवान को भेद न पाइओ॥

(सवयै पा. १०)

हम इस मायिकी भ्रम-भुलाव के ‘अंध-कूप’ में इतने संतुष्ट तथा ‘मस्त’ हैं कि हमें इस ‘तिमिर-अंधकार’ को समझाने-बूझाने या इसमें से निकलने का कभी-

रव्याल ही नहीं आया  
जस्तरत ही नहीं प्रतीत हुई  
इच्छा ही नहीं की  
खोज ही नहीं की  
उद्यम ही नहीं किया  
साधना ही नहीं की।

इन भली भटकी, अज्ञानी, विमरव रूहों में से कोई विरली रुह –

1. दृष्टि – हीन मनुष्य की भाँति, मायिकी ‘अंध – कूप’ में जब अति दुरवी होकर त्राहि – त्राहि करती है,
  2. सत – संगत करते हुए ‘मायिकी – भ्रम’ की नींद से जागृत होती है,
  3. पिछले जन्मों की कमाई जब प्रकट होती है.

तब वह 'भ्रम' के 'अंध - कूप' में से निकलने का प्रयत्न करती है तथा गुरु - ज्ञान रूपी 'प्रकाश' को 'खोजती' है।

जिन्हा दिसंदिआ दूरमति वजै मित्र असाडे सई॥

हउ ढूढेदी जग सबाइआ जन नानक विरले कई॥

(पृ ५२०)

सचि रते से टोलि लहु से विरले संसारि॥

तिन मिलिआ मुखु उजला जपि नामु मुरारि॥

(पृ ९९४)

पूरब करम अंकुर जब प्रगटे भेटिओ पुरखु रसिक बैरागी ॥

मिटिओ अंधेरु मिलत हरि नानक जनम जनम की सोई जागी॥ (पृ० २०४)

ऐसी जागृत अभिलाषी 'रुह' की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन के लिए गुरबाणी  
यूं उपदेश करती हैं –

हरि सिमतर पूरन पदु पाइआ ॥

साधसंगि भै भरम मिटाइआ ॥

(पृ १९३)

भ्रम की जाली ता की काटी जा कउ साधसंगति बिस्वासा ॥ (पृ २०८)

भाइ भगति भरम भउ नासै हरि नानक सदा हजूरि ॥

(पृ ४०६)

सबदि मरै तां एक लिव लाए ॥

अचरु चरै तां भरमु चुकाए॥

(पृ ४१२)

अचरु चरै ता सिधि होई सिधी ते बुधि पाई॥

प्रेम के सर लागे तन भीतरि ता भ्रमु काटिआ जाई॥

(पृ ६०७)

जन नानक बिनु आपा चीने मिटै न भ्रम की काई॥

(पृ ६८४)

कहत कबीर सुनहु रे प्रानी छोडहु मन के भरमा ॥

केवल नामु जपहु रे प्रानी परहु एक की सरनां ॥

(पृ ६९२)

नामु जपत कोटि सूर उजारा बिनसै भरमु अंधेरा ॥

(पृ ७००)

जब पूर्व कर्मों का अंकुर प्रस्फुटित होता है, तो जिज्ञासु का मिलाप  
किसी 'रसिक बैरागी' पुरुष से होता है, जिसकी छुह तथा खमीर से  
उसके –

रव्यालों

धारणाओं

भावनाओं

रुचियों

शौक

मनोरंजन

जीवन-लक्ष्य

कार्य-व्यवहार, आदि

में अचानक परिवर्तन आ जाता है।

हाँ जी, ऐसे बरब्दो हुए रसिक बैरागी पुरुषों की निरंतर संगति तथा सेवा में  
अनुभव द्वारा -

इलाही प्रीत आकर्षण

तथा

आश्चर्यजनक रस

के परिणामस्वरूप उन्हें एक ऐसे 'पूर्ण गुरु' से मिलाप की तीव्र कांखी लग जाती  
है, जो -

प्रेम पुरुष है

अंतर्यामी है

सद बरवशिंद है

आश्चर्यजनक है

आनंद - विनोदी है

चोजी - प्रीतम है

सुख - सागर है

पारस है

सच्चा पातशाह है

निरभउ निरवैर है

दुख भंजन है

सर्व इच्छा पूरक है

सदा अंग - संग है

लाड - करता है

रवेल - रिवलाता है

मिठ बोलड़ा है

आति सुन्दर है  
 सब का पिता है  
 निमाणों का माण है  
 निताणों का ताण है  
 निथावों का थान है  
 पतित पावन है  
 शबद है  
 नाम है  
 पूरा है  
 वाहु – वाहु है।

भाई रे संत जना की रेणु ॥

संत सभा गुरु पाईरे मुकति पदारथु धेणु ॥

(पृ १८)

वड भागि पाइआ गुरि मिलाइआ साध कै सतसंगीआ ॥

(पृ ७०४)

संत सभा ओट गुर पूरे धुरि मसतकि लेखु लिखाए ॥

जन नानक कंतु रंगीला पाइआ फिरि दूखु न लागै आए ॥

(पृ १२६६)

(ऋग्मशः )

